



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 17, 2003/वैशाख 27, 1925

No. 10]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 17, 2003/VAISAKHA 27, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश  
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 6 मई, 2003

का.नि.आ. 61.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) भर्ती नियम, 1996 मुख्य नक्शानवीस का समूह "ख" राजपत्रित पद और समूह "ख" अराजपत्रित पद मुख्य नक्शानवीस श्रेणी-II और नक्शानवीस श्रेणी-I को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्राण से पूर्व किया गया है या किए जाने का लोप किया गया है रक्षा मंत्रालय के अधीन गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में मुख्य नक्शानवीस का समूह "ख" राजपत्रित पद और समूह "ख" अराजपत्रित पद मुख्य नक्शानवीस श्रेणी-II और नक्शानवीस श्रेणी-I के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना), मुख्य नक्शानवीस का समूह "ख" राजपत्रित पद और मुख्य नक्शानवीस श्रेणी-II और नक्शानवीस श्रेणी-I समूह "ख" अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2003 हैं।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (3) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

## 4. निरहता. — वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति. — जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति. — इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन, योग्यता या चयन-सह-प्रेष्ठता के आधार पर अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6	7
1. मुख्य नक्शानवीस	4* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', राजपत्रित किया जा सकता है।	7450-225-11500 रु.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. मुख्य नक्शानवीस श्रेणी-II	6* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित किया जा सकता है।	6500-200-10500 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
3. नक्शानवीस श्रेणी-I	20* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित	5500-175-9000 रु.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए  
अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए  
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत  
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

परीवीक्षा की अवधि,  
यदि कोई हो

8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति  
द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न  
पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/  
स्थानांतरण/आमेलन किया जाएगा

11	12
प्रोन्नति	<p>प्रोन्नति : 6500—10500 रु. के वेतनमान में ऐसा मुख्य नक्शानवीस श्रेणी-II जिसने उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p>
प्रोन्नति	<p>प्रोन्नति : 5500—9000 रु. के वेतनमान में ऐसा मुख्य नक्शानवीस श्रेणी-I जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।</p>
66.66% प्रोन्नति 33.34% प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	<p>प्रोन्नति : 5000—8000 रु. के वेतनमान में ऐसा नक्शानवीस श्रेणी-II जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा की अवधि</p>

सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति : ( जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है। )

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/कानूनी अर्द्ध-सरकारी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000-8000 रु० के वेतनमान में उस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है, और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :

यांत्रिक इंजीनियरी या समतुल्य में डिग्री या इंजीनियरी में यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा साथ ही पोत भरम्मत या पोत निर्माण यार्ड में नवशानवीसी के रूप में दो वर्ष का अनुभव।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. अपर महानिदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय —अध्यक्ष
2. निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय ( नौसेना ) —सदस्य
3. निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय —सदस्य  
( युद्ध पोत परियोजना )
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक ( कार्मिक ), —सदस्य  
गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय ( नौसेना )

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1. अपर महानिदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय —अध्यक्ष
2. निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय ( नौसेना ) —सदस्य
3. निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय —सदस्य  
( युद्ध पोत परियोजना )
4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक ( कार्मिक ), —सदस्य  
गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय ( नौसेना )

13

14

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- |  |          |
|--|----------|
| 1. अपर महानिदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय                                  | —अध्यक्ष |
| 2. निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना)                                | —सदस्य   |
| 3. निदेशक, गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय<br>(युद्धपोत परियोजना)                  | —सदस्य   |
| 4. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक (कार्मिक),<br>गुणवत्ता आश्वासन निदेशालय (नौसेना) | —सदस्य   |

यदि अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आता है तो संघ लोक सेवा  
आयोग का परामर्श आवश्यक है (जिसके अंतर्गत अल्प-  
कालिक संविदा भी है)।

[ फा. सं. 2402/5/सीडीएम. 1/डीजीक्यूए(एन)/कार्मिक/823/डी(क्यू.ए.) ]

एस.एन. त्रिपाठी, उप सचिव

**MINISTRY OF DEFENCE**

(Department of Defence Production and Supplies)

New Delhi, the 6th May, 2003

**S.R.O. 61.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production Supplies, Directorate of Quality Assurance (Naval), Recruitment Rules, 1996 Group 'B' Gazetted post of Chief Draughtsman and Group 'B', Non-gazetted Chief Draughtsman-II and Draughtsman Grade-I, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'B' Gazetted posts of Chief Draughtsman and Group 'B', Non-gazetted Chief Draughtsman-II and Draughtsman Grade-I in the Department of Defence Production and Supplies, Directorate of Quality Assurance (Naval), under the Ministry of Defence, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production and Supplies, Directorate of Quality Assurance (Naval), Group 'B' Gazetted posts of Chief Draughtsman and Group 'B', Non-gazetted Chief Draughtsman-II and Draughtsman-I Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification, scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

**3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.**—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications, and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

**4. Disqualifications.**—No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing with consultation with U.P.S.C., relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

1289 E/03-2

## SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Chief Draughtsman	04* (2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Gazetted	Rs. 7450-225-11500	Non-selection	Not applicable	Not applicable
2. Chief Draughtsman Grade-II	06* (2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non- Gazetted	Rs. 6500-200-10500	Selection	Not applicable	Not applicable
3. Chief Draughtsman Grade-I	20* (2003) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B' Non- Gazetted	Rs. 5500-175-9000	Selection	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment, by or promotion or by deputation/ absorption of the posts to be filled by various methods	
8		9		10	11	
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Promotion	
Not applicable		Not applicable		Not applicable	Promotion	
Not applicable		Not applicable		Two years	66.66% promotion 33.34% deputation including short-term contract	

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commi- ssion is to be consulted in making recruitment
12	13	14
<p><b>Promotion :</b> Chief Draughtsman Grade-II in the pay scale of Rs. 6500-10500 with two years regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>	<p>Group-B, DPC consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Addl. Director General, Quality Assurance —Chairman</li> <li>2. Director, Directorate of Quality Assurance (Naval) —Member</li> <li>3. Director, Directorate of Quality Assurance (Warship Project) —Member</li> <li>4. Joint Director/Deputy Director (Personnel), Directorate of Quality Assurance (Naval) —Member</li> </ol>	<p>Consultation with UPSC not necessary.</p>
<p><b>Promotion :</b> Draughtsman Grade-I in the pay scale of Rs. 5500-9000 with three years regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.</p>	<p>Group-B, DPC consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Addl. Director General, Quality Assurance —Chairman</li> <li>2. Director, Directorate of Quality Assurance (Naval) —Member</li> <li>3. Director, Directorate of Quality Assurance (Warship Project) —Member</li> <li>4. Joint Director/Deputy Director (Personnel), Directorate of Quality Assurance (Naval) —Member</li> </ol>	<p>Consultation with UPSC not necessary.</p>
<p><b>Promotion :</b> Draughtsman Grade-II in the pay scale of Rs. 5000-8000 with three years regular service in the grade.</p> <p><b>Note :</b> Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next</p>	<p>Group-B, DPC consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Addl. Director General, Quality Assurance —Chairman</li> <li>2. Director, Directorate of Quality Assurance (Naval) —Member</li> <li>3. Director, Directorate of Quality Assurance (Warship Project) —Member</li> <li>4. Joint Director/Deputy Director (Personnel), Directorate of Quality Assurance (Naval) —Member</li> </ol>	<p>Consultation with the UPSC necessary while appointing an officer on deputation (ISTC).</p>

higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

**Deputation (ISTC)**

Officers under the Central/State Government/ Public Sector Undertakings/Statutory, Semi-Government or Autonomous organisations.

(a)(i) Holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/department; or  
(ii) With three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 or equivalent in the parent cadre/Deptt.; and

(b) Possessing the following educational qualifications and experience :

Degree in Mechanical Engineering or equivalent, or Diploma in Mechanical Engineering with two years experience as Draughtsman in Ship Repair or Ship Building Yards.

**Note :** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

[F. No. 2402/5/CDM-I/DGQA(N)-Pers/823/D(QA)]

S. N. TRIPATHI, Dy. Secy.